

दिसम्बर, _____ को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु अचल सम्पत्तिका विवरण
STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR ENDING DECEMBER, 2020

संस्थानका नाम/Name of the Institute

: National Institute for Interdisciplinary Science & Technology, Thiruvananthapuram

अधिकारीका पूरानाम/Name of the Officer (in full)

: Venugopalan V V

वर्तमान वेतन Present Pay : Rs.1,52,000/- GP Rs 8700

पद/Present post held

: Senior Principal Scientist


सीएसआईआर में शामिल होने की तिथि Date of Joining CSIR: 28.01.2002

क्र.मां.क. Sl. No.	सम्पत्तिका विवरण Description of Property	एकदम सहो स्थान (जिले, मंडल, तालुक, और गांव का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है और सम्पत्तिका विशिष्ट नंबर आदि) Precise location (Name of District, Division, Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number etc.	भूमिका क्षेत्रफल (भूमि एवं इमारतों/ भवनों के मामले में) Area of land (in case of land and buildings)	भूसम्पत्तिके मामले में भूमिकी स्वरूप Nature of land in case of landed property	संपत्ति में हिस्सेदारी का अंश Extent of interest	यदि सम्पत्ति अपने स्वयंके नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उससे सरकारी कर्मचारी का क्या सम्बन्ध है If not in own name, state in whose name held and his/her relationship, if any to the Government servant	अर्जन की तारीख Date of acquisition	(I) संपत्ति कैसे अर्जित की गयी? (क्या क्रय पट्टे पर ली गयी, बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा अन्यथा ली गयी) ! (II) जिनसे सम्पत्ति अर्जित की गयी, उन व्यक्तियों के नाम तथा पूर्ण पता और (iii) संबंधित व्यक्ति/ व्यक्तियों के साथ सरकारी कर्मचारी का सम्बन्ध, यदि कोई हो तो (कृपया नीचे दिए गए नोट 1 को देखें) (i) How acquired (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) (ii) Name with details of person/persons from whom acquired (address) and (iii) Connection of the Government Servant, if any, with the person/persons concerned (Please see Note 1 below)	Value of the Property सम्पत्तिका मूल्य		निर्धारित प्राधिकारी यदि कोई हो, की स्वीकृति का विवरण/निर्धारित प्राधिकारी को दी गयी सूचना का विवरण Particulars of sanction of prescribed authority, if any/Intimation to the Prescribed Authority	सम्पत्ति से कुल वार्षिक आय Total annual income from the property	Remarks टिप्पणी
									खरीद मूल्य (कृपया नीचे दिए गए नोट 2 को देखें) Purchase Value (see Note 2 below)	वर्तमान मूल्य Present Value			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	11	12	13
1	Land & House	Survey No 553/15 Nemom Village TC No: 51/2771(1) Kuzhivila lane, pappnamcode	13 cents land 320 Sq. mt house	House plot	own	NA	Land on 4/11/2010 House constructd 31/1/2013	Land purchase from Shiji Krishnan TC 54/272, Tulavila & Mohankumar TC51/2610 Pappnamcode House constructed	Rs. 70 lakhs Total	Rs 150 Lakhs	Intimated	Nil	Nil
2.	Land	Survey No 1177/A4-2-2 Kunnapuzha Thirumala Village Aaramada	9cents	House plot	Own	NA	11/9/2008	Purchase from Mr. Bhuvanachandra n, Sudhapadma, Aaramada PO	Rs 12 lakhs	Rs 65 Lakhs	Intimated	Nil	Nil

3.	Shop building	Block 276/4 TMC21/237 Tripunithura	150 sq ft	Shop building	own	NA	16/9/1995	Purchase from Balakrishnan Madathilparambil Poonithura PO	Rs 1 lakh	Rs 20 Lakhs	Purchase before joining NIIST	Rs.1.2 Lakhs	Nil
----	---------------	--	-----------	---------------	-----	----	-----------	--	--------------	----------------	--	-----------------	-----

Date: 2/1/2021

हस्ताक्षर/Signature



Contd..2.

- 2 -

नोट 1 - कॉलम 9 हेतु, 'पट्टेपरलीगयी' शब्दसेअभिप्रायअचलसंपत्तिकोवर्षदरवर्षअथवाएकवर्षसेअधिककीकिसीअवधिहेतुपट्टेपरलेनेअथवावार्षिककिरायेपररिजर्वरखनेसेहोगा। तथापिजहांअचल संपत्तिकिसीऐसेव्यक्तिसेपट्टेपरप्राप्तकीगयी, जिससेसरकारीकर्मचारीका आधिकारिक तौरपरसंबंधहै, ऐसेपट्टेकोचाहेपट्टेकीअवधिकमहोअथवाज्यादा, किराएकेभुगतानकी आवधिकताकेबावजूदकॉलममेंदर्शायाजाए।

Note 1. - For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

नोट-2 कॉलम 10 मेंनिम्नलिखितदर्शाएं

- (1) जहाँसंपत्तिखरीद, बंधकयापट्टेपरअर्जितकीगयीहो, तोऐसेअधिग्रहणहेतुअदाकियागयामूल्ययाप्रीमियम
- (2) जहाँयहपट्टेपरअर्जितकीगईहोतोइसकाकुलवार्षिककिरायाभी; तथा
- (3) जहाँअर्जितउत्तराधिकार, उपहारयाअदला- बदलीद्वाराकियागयाहो, तोऐसीअर्जितसंपत्तिकाअनुमानितमूल्य

Note 2 In column 10 should be shown

- (a) Where the property has been acquired by purchase, mortgage or lease, the price or premium paid for such acquisition;
- (b) Where it has been acquired by lease, the total annual rent thereof also; and
- (c) Where the acquisition is by inheritance, gift or exchange, the approximate value of the property so acquired.